

No. DRAWBACK/PN-71/72.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DEK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

After Sub-Serial No. 2728 and the entries relating thereto, the following Sub-Serial No. and the entries shall be inserted, namely:—

| Sub-Sl. No. | Description of goods | Rate of drawback |
|-------------|--|--|
| 2729 | Impregnated Incandescent Chemicalised Gas Mantle Hoses exported in running lengths:— | |
| (i) | Gas Mantle Hoses with ramie or button thread provided weight of ramie or button thread does not exceed 2% by weight of gas mantle hoses. | Rs. 2.70 (Rupees two and seventy paise only) per kg. |
| (ii) | Asbestos yarn for the gas Mantle hoses | Rs. 0.45 (forty-five paise only) per kg. |

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 71/72.—सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 2728 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

| उप-क्रम सं० | माल का विवरण | प्रतिअदायगी की दर |
|-------------|---|---|
| 2729 | निर्यात किये गये लम्बे-लम्बे संमिश्र उद्दीप्त रामायनिकृत गैस मैण्टल होज : | |
| (i) | रैमी (Ramie) अथवा बटन-धागे (बटन धाग) वाले गैस मैण्टल होज, बशर्ते कि रैमी अथवा बटन धागे का भार गैस मैण्टल होज के भार के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। | 2.70 रुपये (केवल दो रुपये तथा सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम |
| (ii) | गैस मैण्टल होज के लिए एम्ब्रेस्टस धागा | 0.45 रुपये (केवल पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम |

उपरोक्त माल के सम्बन्ध में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिये निश्चित सभी बाण्ड बरें इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने पर वापस ले ली गई समझी जायेंगी।

No. DRAWBACK/PN-71/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

For Sub-serial No. 2805, and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

| Sub-Sl. No. | Description of goods | Rate of drawback |
|-------------|--|--|
| 2805 | Woollen druggets including Kelims with cotton yarn or linen yarn in warp and woollen yarn in weft. | Rs. 0.25 (Twenty-five paise only) per Kg. of drugget/Kelims. |

सं० प्रतिभ्रदायगी (पी० एन०)/72/72.—सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रतिभ्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभ्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :

उप-क्रम सं० 2805 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

| उप-क्रम सं० | माल का विवरण | प्रतिभ्रदायगी की दर |
|-------------|---|--|
| 2805 | ऊनी दरियां जिसमें कैलिम्स भी शामिल हैं, जिनका ताना सूती धागे अथवा लिनन धागे का तथा बाना ऊनी धागे का हो। | ऊनी दरियां/कैलिम का 0.25 रुपये (केवल पच्चीस पैसे) प्रति किलोग्राम। |

No. DRAWBACK/PN-73/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 with immediate effect :—

For Sub-Serial No. 3818 and entries relating thereto the following shall be substituted :—

| Sub-Sl. No. | Description of goods | Rate of drawback |
|-------------|--|--|
| 3818 | Nyloc Self Locking nuts fitted with Nyloc inserts. | Brand Rate to be fixed on application from individual manufacturer/exporter. |

B. N. RANGWANI,
Jt. Dr. (Drawback).

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 73/72.—सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा तत्काल निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उप-क्रम सं० 3818 तथा उसमें सम्मिलित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

| उप-क्रम सं० | माल का विवरण | प्रतिअदायगी की दर] |
|-------------|---|---|
| | | 1 |
| 3818 | नाइलांक इतसर्ट्में के साथ फिट हुई स्वतः ताला लगने वाली नाइलांक छिबरियां | अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर [ब्राण्ड दर निश्चित की जानी है । |

बी० एन० रंगवानी,
संयुक्त निदेशक (प्रतिअदायगी) ।

